



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1941 (श0)  
(सं0 पटना 1076) पटना, बुधवार, 18 सितम्बर 2019

सं० 7 / बि०पु०ह०-20-02 / 2016-7692 / गृ०आ०  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

संकल्प  
16 सितम्बर 2019

**विषय :- बिहार पुलिस हस्तक (Bihar Police Manual) के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन।**

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के कतिपय प्रावधानों के निष्प्रभावी हो जाने के कारण ऐसे प्रावधानों को हटाकर और कालांतर में पुलिस हस्तक में जोड़े गये नियमों/उप नियमों को संकलित कर बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के पुनरीक्षण एवं नये पुलिस हस्तक के सृजन की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है। साथ ही, वर्तमान में प्रचलित कानून के अनुरूप पुलिस हस्तक का गठन आवश्यक हो गया है।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार, बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के पुनरीक्षण एवं अबतक हुए विभिन्न संशोधनों के आलोक में नए पुलिस हस्तक के सृजन हेतु निम्नांकित रूप से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करती है:-

- |       |                                                                                                        |   |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| (i)   | अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना                                                            | — | अध्यक्ष     |
| (ii)  | पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना                                                              | — | सदस्य सचिव  |
| (iii) | विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार                                                              | — | सदस्य       |
| (iv)  | श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय, अपर सचिव,<br>वित्त विभाग, बिहार, पटना                                   | — | सदस्य       |
| (v)   | विभिन्न इकाईयों यथा—विशेष शाखा,<br>अप०अनु०विभाग, रेल, सैन्य पुलिस, प्रशिक्षण<br>आदि से संबंध पदाधिकारी | — | विशेष सदस्य |

3. समिति को सचिवालयीय सहायता पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
4. समिति द्वारा यह कार्य समिति गठन की तिथि से छः माह की अवधि में पूर्ण किया जाएगा।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

आदेश से,  
रंजन कुमार सिन्हा,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1076-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>